

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2018—फाल्गुन 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018

फा. क्र. 782-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 34-मुंगावली विधान सभा उपचुनाव 2018 सेक्टर/जोनल अधिकारियों की संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2018

क्र. सामा.निर्वा.-2018-579.—विषयान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली उप निर्वाचन 2018 विडियो ग्राफी (उड़न दस्ता) के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है:—

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|-------------|------------------------|---|
| 1 | श्री सतीश मटसेनिया | मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुंगावली जिला अशोकनगर |
| 2 | श्री ज्ञारसीलाल जाटव | पी.सी.ओ. जनपद पंचायत मुंगावली |
| 3 | श्री शशिभूषण बादल | एस.ए.डी.ओ. कृषि विभाग, मुंगावली |
| 4 | श्रीमति सुधारानी शर्मा | परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगावली |
| 5 | श्री आर. सी. उज्जैनी | बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली |

उपरोक्तानुसार एक लगायत पांच अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय करने का कष्ट करें.

बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

अशोकनगर, दिनांक 8 फरवरी 2018

आदेश

क्र. सामा.निर्वा.-2018-643.—विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली उप निर्वाचन 2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये निम्नानुसार कार्य क्षेत्र से संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को स्थैतिक निगरानी दल प्रभारी नियुक्त किया जाकर सहयोग के लिये अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है. विवरण निम्नानुसार है:—

| क्र. | नियुक्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का नाम | सहयोग हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम | समय | चैक पोस्ट का नाम | सहयोगी |
|------|--|---|---|------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री सुनील शर्मा, नायब तहसीलदार मल्हारगढ़. | 1. श्री अजय कुमार जैन, एस.डी.ओ. पी.एच.ई., मुंगावली. 2. श्री सनन यादव, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली. 3. श्री के. के. शर्मा, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली. | प्रातः : 6.00 से दोपहर 02.00 बजे तक. दोपहर 2.00 बजे से 10.00 बजे तक. रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक. | घाटवमूरिया | संबंधित थाना प्रभारी. |
| 2 | श्री आनंद जैन, नायब तहसीलदार मुंगावली. | 1. श्री धाकड़ वन परिक्षेत्राधिकारी, मुंगावली. 2. श्री बलवंत अहिरवार, जनपद, जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली. 3. श्री यादवेन्द्र सिंह यादव, जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली. | प्रातः : 6.00 से दोपहर 02.00 बजे तक. दोपहर 2.00 बजे से 10.00 बजे तक. रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक. | सेमरखेडी | संबंधित थाना प्रभारी. |
| 3 | श्री बल बहादुर सिंह कौरव, नायब तहसीलदार, चंदेरी. | 1. श्री शाक्य, जल संसाधन विभाग, मुंगावली. 2. श्री एन. आर. नंदमेर, उपयंत्री जनपद पंचायत, मुंगावली. 3. श्री राघवेन्द्र शर्मा, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली. | प्रातः : 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक. दोपहर 02.00 बजे से 10.00 बजे तक. रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक. | मर्दनखेडी | संबंधित थाना प्रभारी. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|---|-----------|--------------------------|
| 4 | श्री शिरोमणी कुशवाह, नायब तहसीलदार, पिपरई. | 1. श्री आनंद त्रिपाठी, पशु चिकित्सालय, मुंगावली. 2. श्री डी.एल. शाक्य, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली. 3. श्री दिलीप राठौर, उपयंत्री जनपद पंचायत, मुंगावली. | प्रातः : 6.00 से दोपहर 02.00 बजे तक. दोपहर 02.00 बजे से 10.00 बजे तक. रात्रि 10.00 से प्रातः : 6.00 बजे तक. | पिपरई | संबंधित थाना प्रभारी. |
| 5 | श्री रमेश सिंह रघुवंशी, नायब तहसीलदार. | 1. श्री वी. डी. शर्मा, वी.सी.पी.एम. आवास योजना, मुंगावली. 2. श्री आर. एन. शर्मा, उपयंत्री जनपद पंचायत, मुंगावली. 3. श्री राजाराम मोगिया, सी.ए.सी. जनपद शि. के., मुंगावली. | प्रातः : 6.00 से दोपहर 02.00 बजे तक. दोपहर 02.00 बजे से 10.00 बजे तक. रात्रि 10.00 से प्रातः : 6.00 बजे तक. | मल्हारगढ़ | संबंधित थाना प्रभारी. |

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.